



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 56]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2001/माघ 11, 1922

No. 56]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2001/MAGHA 11, 1922

वस्त्र मंत्रालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 31 जनवरी, 2001

का०आ० 84(अ).—भारत सरकार के अधिसूचना सहित तब तक के वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 2000 के का० आ० सं० 565 (अ) के साथ पठित पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अ०कु० कपास, पटसन उपायुक्त एतद्वारा प्रति सौ बोरो की अधिकतम उचित फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) कीमत रु० 1545.13 निर्धारित करता हूँ, जिसमें जनवरी, 2001 के दौरान 50 कि० ग्रा० पैकिंग के लिए उन्हीं बी० टिक्स जूट बोरो की खरीद अथवा बिक्री की जाएगी, जिनका साइज 94 सें० मी० × 57 सें० मी०/एच० डी० और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम हो, अन्तिम सिरे प्रति डायामीटर 76 (+ 4, -2) हो तथा पिक्स प्रति डायामीटर 28 (+ 2, -1) जिममें बोरे की लंबाई के मध्य भाग में इकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि० मी० की दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिह्न भी हो, जिनमें मजबूत मिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के वर्तमान विनिर्देशन (सं. भा. मा. 12650-1997) अद्यतन यथा संशोधित के अनुरूप हो, प्रत्येक बोरे पर पूर्ति अथवा निपटान महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास ट्रेडमार्क लगा हो तथा भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की अधिकतम औसत सामर्थ्य (ब्रिकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के. जी. एफ. और बाने की 145 के. जी. एफ. हो।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई कीमत में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और उपकर बिक्री कर सम्मिलित नहीं होंगे। इनका खरीददार अथवा वास्तविक प्राप्तकर्ता द्वारा फैक्टरी कीमत के अलावा, अलग से भुगतान किया जाएगा।

[फाइल सं० 8/2/2000-पटसन]

अ० कु० कपास, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER
NOTIFICATION

Calcutta, the 31st January, 2001

S.O. 84(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, read with the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Textile No. S.O. 565(E) dated the 12th June, 2000, I, A.K. Kapas, Deputy Jute Commissioner hereby fix Rs. 1545.13 per 100 bags as the maximum ex-factory fair price at which B.Twill Jute Bags for 50 kg. Packing of the size 94 cm x 57cm /HD. 665gm. mass per bag. 76 (+4, — 2) ends per dm. 28 (+2, -1) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive green warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-1997 as amended till date) shall be purchased or sold during the month of January, 2001. Every bag to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Calcutta with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall be 160 kgf. for warp way and 145 kgf. for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2 The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F.No. 8/2/2000-Jute]

A.K. KAPAS, Dy. Jute Commissioner